

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 635]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 24, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2010

क्र. 17-एफ-1-258-2010-अठारह-3-शुद्धि-पत्र.—मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 में प्रकाशित नगरपालिका मंदसौर, जिला मंदसौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची के कॉलम नम्बर (1) के सरल क्रमांक 7 महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड के कॉलम नम्बर (4) में 37—नरसिंह वार्ड के स्थान पर 36—नरसिंह वार्ड पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. मिश्रा, सचिव.